

दिनांक 10 मार्च, 2018 को सायं 06:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, नीम ट्री मॉर्निंग वॉकर्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह के अवसर पर दशकों पुराने गीतों को अनुभवी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम का प्रारम्भ सभागार में उपस्थित सदस्यों ने परस्पर एक-दूसरे के साथ फूलों की होली कर खेल कर किया।

वाद्य यंत्रों में की-बोर्ड पर श्री राजा चौधरी, इलेक्ट्रॉनिक की-पैड ने श्री के.के. मिश्रा ने, तथा ढोलक एवं तबला पर श्री मनीष कुमार ने साज दिया। कार्यक्रम निम्नलिखित लोकगीतों को श्री अरुण दास एवं मिस इंदु ठाकुर ने प्रस्तुत किया जिनमें प्रमुख हैं:

रंग बरसे भीगे चुनर वाली, होली आई रे कन्हाई, पीया तोसे नैना लागे रे, आज्ञा सनम मधुर चाँदनी में हम, हवा के साथ-साथ, मोहे पनघट में नन्द लाल छेड़ गयो रे, नैन लड़ जईये, फूल गँदवा, आदि लोक गीतों को प्रस्तुत किया गया।

डॉ. आई.एम. रोहतगी, ने “ख्वाब हो तुम या कोइ हकीकत” और “है अपना दिल तो आवारा” पर बैजो (वाद्य-यंत्र) बजाकर श्रोताओं को मन्त्र-मुग्ध कर दिया।

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश तथा नीम ट्री मॉर्निंग वॉकर्स क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में होली पर्व में विशेष रूप से पसंद की जाने वाली चाट एवं ठंडाई की व्यवस्था की गयी थी।

कार्यक्रम का संचालन श्री स्वतंत्र सिंह ने किया।

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य: इस समारोह में श्री बी.के. लाहोटी, अध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ यू.पी., श्री बी.एम. गर्ग, उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ यू.पी., श्री राजीव मेहरोत्रा, सचिव, एन.टी.एम.डब्लू.सी. मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति तथा नीम ट्री मॉर्निंग वॉकर्स संस्था के सदस्यगण अपने परिवारीजनों के साथ उपस्थित थे।

सधन्यवाद